

एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना बिसौली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही से बदायूँ पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता ।

अंतरजनपदीय ट्रांसफार्मर चोर गैंग का खुलासा, 05 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे सें 91 कि०ग्रा० तांबे का क्वायल, कटर मशीन व अन्य उपकरण तथा 03 अदद देशी तमन्चे व कारतूस बरामद किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ श्री डा० ओ०पी० सिंह के कुशल निर्देशन व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बिसौली श्री ओजस्वी चावला के नेतृत्व में एसओजी टीम व थाना बिसौली पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण किया गया ।

घटना क्रम :- दिनांक 16/17.05/2022 को थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत शेखूपुर में बनें बिजलीघर सें व दिनांक 03/04.07.2022 को थाना बिसौली क्षेत्रान्तर्गत बिजलीघर मे लगे ट्रांसफार्मरों को उतारकर चोरों के द्वारा कटर मशीन सें काटकर ट्रांसफार्मर के अंदर लगे कीमती तांबा के क्वायल इत्यादि की चोरी की घटनाएं हुई थी । जिस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर मु०अ०सं० 271/2022 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात तथा थाना बिसौली पर मु०अ०सं० 310/2022 धारा 380/457 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । घटना की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ श्री डा० ओ०पी० सिंह के द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी बिसौली श्री ओजस्वी चावला के नेतृत्व में एसओजी टीम व थाना बिसौली पुलिस की टीम बनाकर घटना का खुलासा और बरामदगी करने हेतु निर्देशित किया गया था । इस क्रम में आज दिनांक 17-07-2022 को संयुक्त टीम द्वारा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए आसफपुर रोड स्थित बिजलीघर के पास से चोरी की योजना बनाते समय अभि०गणों को गिरफ्तार किया गया है ।

पूछताछ का विवरण :- गिरफ्तार शुदा अभि०गण ने बताया कि हमारा एक संगठित गिरोह है जो ट्रांसफार्मर में लगे कीमती तार की चोरी की घटना विभिन्न जनपदों में करते रहते हैं, हमारा गैंग काफी बडा है और अगल-बगल के जनपदों तक फैला हुआ है । चोरी की घटना करने से पूर्व रैकी करते हैं उसके बाद योजना बनाकर हम लोग घटना को अन्जाम देते हैं । थाना सिविल लाइन व बिसौली एवं थाना वजीरगंज क्षेत्रान्तर्गत हुई ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं से पूर्व भी गैंग के सदस्यों द्वारा रैकी की गई थी

। बिसौली थानान्तर्गत बिजली घर में चोरी करते समय गैंग लीडर फईम उर्फ फैजान का पैर ट्रांसफार्मर में से गिरने वाले तेल पर फिसलकर गिरने से गैंग लीडर का पैर व हाथ फ्रैक्चर हो गया था । ट्रांसफार्मर काटने का कार्य फईम के द्वारा किया जाता है जबकि ट्रांसफार्मर से निकले कीमती तारों को बेचने का कार्य अनस व मुकीम करते हैं जो कि पेशे से कबाड़ी का कार्य करते हैं ।

गिरफ्तारी का दिनांक व समय-

दिनांक 17-07-2022 समय 00.05 बजे स्थान- आसफपुर रोड पर बने बिजलीघर के निकट थाना इस्लामनगर ।

गिरफ्तार अभिगण का नाम व पता -

1. फईम उर्फ फैजान पुत्र सलीम नि० जगतपुर गौटिया थाना बारादरी जनपद बरेली ।
2. यासीन मंसूरी पुत्र सिकंदर मंसूरी नि० घनघोरा पिपरिया थाना भोजीपुरा जनपद बरेली ।
3. अनस उर्फ बब्लू पुत्र पप्पू मंसूरी नि० वार्ड नं० 10 मो० तकिया कस्बा व थाना वजीरगंज जनपद बदायूं ।
4. गुड्डू उर्फ शाकिर पुत्र कल्लू मंसूरी नि० घनघोरा पिपरिया थाना भोजीपुरा जनपद बरेली ।
5. अलीम पुत्र कल्लू मंसूरी नि० घनघोरा पिपरिया थाना भोजीपुरा जनपद बरेली ।

वांछित अभिगण का नाम व पता -

1. फरीक अहमद पुत्र शब्बीर अहमद नि० बासुधरन जागीर थाना देवरनिया जनपद बरेली ।
2. मुकीम पुत्र अज्ञात नि० शेखूपुर थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं हाल पता वार्ड नं० 7 मो० तकिया कस्बा व थाना वजीरगंज जनपद बदायूं ।
3. नदीम पुत्र बूढन शाह नि० ताडगंज नई बस्ती थाना आंवला जनपद बरेली ।

बरामदगी का विवरण –

1. 91 कि०ग्रा० तांबे का कीमती तार ।
2. 03 अदद तमंचा देशी व 06 जिंदा कारतूस 315 बोर ।
3. 01 कटर मशीन, पिलास, पेंचकस, चाबियां (विभिन्न नम्बरों की), हथौड़ी व अन्य उपकरण ।

गैंग का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 271/2022 धारा धारा 380 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं ।
2. मु०अ०सं० 310/2022 धारा धारा 380/457 भादवि थाना बिसौली जनपद बदायूं ।
3. मु०अ०सं० 120/2022 धारा 379 भादवि थाना वजीरगंज जनपद बदायूं ।
4. मु०अ०सं० 336/2022 धारा 398/401 भादवि थाना बिसौली जनपद बदायूं ।
5. मु०अ०सं० 337/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसौली जनपद बदायूं ।
6. मु०अ०सं० 338/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसौली जनपद बदायूं ।
7. मु०अ०सं० 339/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसौली जनपद बदायूं ।

नोट- इसके अतिरिक्त इस गैंग के द्वारा थाना क्षेत्र आंवला जनपद- बरेली, थाना क्षेत्र मिलक जनपद- रामपुर व उत्तराखंड प्रदेश अन्तर्गत किच्छा जनपद- उधमसिंह नगर में भी बिजलीघरों से ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं की गई हैं जिनका विवरण ज्ञात किया जा रहा है ।

गैंग लीडर फईम उर्फ फैजान चोरी की अन्य घटनाओं में दिल्ली व हरियाणा राज्य तथा थाना बारादरी जनपद बरेली से पूर्व में जेल जा चुका है आपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है ।

बरामदगी मे सम्मिलित टीम-

एसओजी/सर्विलांस टीम

उ०नि० धर्वेन्द्र सिंह प्रभारी एसओजी, हे०का० सचिन कुमार झा, हे०का० शराफत हुसैन, हे०का० मुकेश कुमार, का० सचिन कुमार, का० लोकेन्द्र कुमार, का० मनीष कुमार, का० भूपेन्द्र, का० आजाद, का० अरविन्द कसाना, का० कुशकान्त ।

थाना बिसौली पुलिस

प्र०नि० बिजेन्द्र सिंह, उ०नि० शैलेन्द्र कुमार, उ०नि० विनोद कुमार, का० अमित कुमार, का० जगतपाल, का० उदयप्रताप सिंह, का० रिजाबुल हसन ।

सोशल मीडिया सैल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

जनपद बदायूँ ।